

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2024—आषाढ़ 7, शक 1946

## विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जून 2024

फा. क्र. 84(03)—2024—चार—वि.निर्वा—148.—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के उपनियम 11 (2) के अन्तर्गत 123—अमरवाड़ा (अ.ज.जा.) विधान सभा उप निर्वाचन 2024 के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप—7क का हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजेश कुमार कौल, सचिव.

## प्रारूप-7 क





(निर्वाचन संचालन नियम 1961 का नियम 10 (1) देखें)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची





123- अमरवाड़ा(अ.ज.जा) निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश विधानसभा का उपनिर्वाचन 2024





क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दलीय संबंधन	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5

## (i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी







1	कमलेश प्रताप शाह 	मु. बसुरिया कला, पो. बसुरिया खुर्द, तह. हरई जिला छिन्दवाड़ा पिनकोड- 480224	भारतीय जनता पार्टी	कमल  Lotus
2	धीरनशा सुखराम दास इनवाती 	ग्राम आंचलकुंड, पोस्ट बांका, तहसील हरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ  Hand

## (ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दलों के अतिरिक्त)

3	चंद्रदीप तेकाम (पत्रकार) 	ग्राम पंचायत - हिवरासानी ग्राम - खमरा राजाराम पोस्ट - कुदवारी जिला - छिन्दवाड़ा(म.प्र.)	अहिंसा समाज पार्टी	बैटरी टॉर्च  Battery Torch
4	देवीराम उर्फ देवरावेन भलावी 	मु. खुटिया झंझरिया, पो. बांका, तहसील छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) 480001	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	ब्लैक बोर्ड  Black Board

क. सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दलीय संबंधन	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5
5	<p>एडवोकेट राजकुमार सरयाम</p> 	<p>मु. पो. सालीवाड़ा शारदा तहसील अमरवाड़ा जिला - छिन्दवाड़ा म.प्र. 480221</p>	<p>जनसेवा गोंडवाना पार्टी</p>	<p>आशी</p>  <p>Saw</p>
6	<p>रीता मरकाम</p> 	<p>ग्राम पो0 लफरा तह0 बिछिया जिला मंडला (म0प्र0)</p>	<p>राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी</p>	<p>बत्ता</p>  <p>Bat</p>

( iii ) अन्य अभ्यर्थी

7	<p>अतुल राजा उइके</p> 	<p>मु0 बरधिया पोस्ट कुदवारी तहसील - अमरवाड़ा जिला - छिन्दवाड़ा (म.प्र.) 480221</p>	<p>निर्दलीय</p>	<p>ए-अरकंडीसर</p>  <p>Air Conditioner</p>
8	<p>पवनशाह सरयाम</p> 	<p>वार्ड नं. 16, ग्राम कुकरई, पो. सांख, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) 480115</p>	<p>निर्दलीय</p>	<p>हॉकी और बॉल</p>  <p>Hockey and Ball</p>
9	<p>शोभाराम भलावी</p> 	<p>वार्ड नंबर 9 ग्राम चौखड़ाढाना, पो. सारना तहसील छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)</p>	<p>निर्दलीय</p>	<p>चक्की</p>  <p>Chakki</p>

हस्ता./-

( हेमकरण धुर्वे )

रिटनिंग आफिसर

स्थान- अमरवाड़ा  
तारीख 26 जून 2024





123-अमरवाड़ा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,

**FORM 7A****[See rule 10(1) of the Conduct of Election Rules,1961]****LIST OF CONTESTING CANDIDATES**





Bye Election 2024 to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 123-Amarwara(ST) Constituency





Sl NO.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5

**(i) Candidates of recognised National and State political parties.**







1	<b>KAMLESH PRATAP SHAH</b> 	<b>MU. BASURIYA KALA , POST. BASURIYA KHURD, TAH. HARRAI DISTRICT CHHINDWARA PINCODE- 480224</b>	<b>Bharatiya Janata Party</b>	<b>कमल</b>  <b>Lotus</b>
2	<b>DHEERAN SAH SUKHARAM DAS INVATI</b> 	<b>GRAM AANCHALKUND , POST BANKA , TAH. HARRAI DISTRICT CHHINDWARA ( M.P.)</b>	<b>Indian National Congress</b>	<b>हथ</b>  <b>Hand</b>

**(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and state political parties).**

3	<b>CHANDRADEEP TEKAM (PATRAKAR)</b> 	<b>GRAM PANCHAYAT - HIWRASANI GRAM - KHAMRA RAJARAM POST - KUDWARI DISTRICT - CHHINDWARA ( M.P.)</b>	<b>Ahinsa Samaj Party</b>	<b>बैटरी टार्च</b>  <b>Battery Torch</b>
4	<b>DEVIRAM URF DEVRAVEN BHALAVI</b> 	<b>MU. KHUTIYA JHANJHARIYA , PO. BANKA, TAHSIL CHHINDWARA, DISTRICT CHHINDWARA (MADHYAPRADESH) 480001</b>	<b>Gondvana Gantantra Party</b>	<b>ब्लैक बोर्ड</b>  <b>Black Board</b>

	Name of Candidate	Address of Candidate	Party affiliation	Symbol allotted
	2	3	4	5
5	<b>ADVOCATE RAJKUMAR SARYAM</b> 	<b>MU. PO. SALIWARA SHARDA                      TAHSIL AMARWARA                      DISTRICT - CHHINDWARA M.P.                      480221</b>	<b>Janseva                      Gondwana                      Party</b>	आरी  Saw
6	<b>REETA MARKAM</b> 	<b>GRAM PO. LAFRA                      TAH. BICHHIYA                      DISTRICT MANDLA (M.P.)</b>	<b>Rashtriya                      Gondvana                      Party</b>	बल्ला  Bat

(iii) Other Candidates.

7	<b>ATUL RAJA UIKEY</b> 	<b>MU. BARDHIYA                      POST KUDWARI                      TAHSIL - AMARWARA                      DISTRICT - CHHINDWARA                      (M.P.) 480221</b>	<b>Independent</b>	एअरकंडीसर  Air Conditioner
8	<b>PAWANSHAH SARYAM</b> 	<b>WARD NO. 16                      GRAM KUKRAI,                      PO. SANKH,                      TAHSIL CHOURAI                      DISTRICT CHHINDWARA (M.P.)                      480115</b>	<b>Independent</b>	हॉकी और बॉल  Hockey and Ball
9	<b>SHOBHARAM BHALAVI</b> 	<b>WARD NO 9                      GRAM CHOUKHADADHANA ,                      PO. SARNA                      TAHSIL CHHINDWARA                      DISTRICT CHHINDWARA (M.P.)</b>	<b>Independent</b>	चक्की  Chakki

Place : Amarwara  
 Date : 26<sup>th</sup> June 2024

Sd./-  
 (HEM KARAN DHURWE)  
 Returning Officer  
 123-Amarwara (ST) Legislative Assembly.